

सीसीआरएएस-सीएआरआई, झाँसी को एनएबीएल की मान्यता

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय वजिज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत प्रमुख संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी को एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता मलि गई ।

प्रमुख बदि

- केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जसिमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नयितरण प्रयोगशालाएँ (रसायन वजिज्ञान, सूक्ष्म जीव वजिज्ञान, फार्माकोग्नॉसी), आयुर्वेदिक फार्मेसी, सेंटरल हर्बेरियम और संग्रहालय एवं नेशनल रॉ ड्रग्स रपिोजिटरी (एनआरडीआर) हैं ।
- केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी के अलावा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), नई दलिली को एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता मलि है । केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दलिली एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला सीसीआरएएस के तहत पहला संस्थान है ।
- इन दो सीसीआरएएस संस्थानों के अलावा, पंचकर्म के लिये राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी), चेरुथुरुथी, त्रशूर, केरल को भी अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिये एनएबीएल एम (ईएल) टी की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है । एनएआरआईपी, केरल केंद्रीय आयुर्वेदिक वजिज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं में से एक है ।
- उल्लेखनीय है कि एनएबीएल भारतीय गुणवत्ता परिषद् का मूल बोरड है, जसिकी स्थापना स्वास्थय सेवा संगठनों के मान्यता कार्यक्रमों को स्थापति करने और उन्हें चलाने के लिये की गई है । आधिकारिक मान्यता राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर रोगी सुरक्षा और स्वास्थय देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रति करती है ।